



This Deed of Lease is made on this 28 day of June 2010.

Between

Allahabad Development Authority, Allahabad through its Vice Chairman (hereinafter referred to as the 'Lessor', which expression shall unless repugnant to the context, mean and include its administrators, successors and assigns) of the First Part,


And

M/s Pancham Realcon Pvt. Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956 having its Registered Office at 10, Local Shopping Center, P.O. Kalakaji, New Delhi-110019 (hereinafter referred to as the 'Lessee' which expression shall unless repugnant to the context, mean and include its successors and assigns) of the Second Part.

Whereas the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "The Government") vide Commissioner/Distt. Magistrate, Allahabad Order No. 801/न०भ०स्ती०/भ०आ००/०९ dated 07 September 2009 allotted ceiling surplus Land admeasuring 89.26 Acres of Village Devrakh Kachhar, Madanua Uparhar, and Lawayan Kalan, Pargana Arail, Tehsil Karchana District Allahabad the details which are given in SCHEDULE-1 hereto (hereinafter referred to as "the Land") for the purpose of Hi-Tech Township in Allahabad District, Uttar Pradesh.

संचय
पंचाम

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद



AND WHEREAS the Lessor, at the request of the lessee vide Government Order No. 577/उपा०/न०नि०/वि०प्रा०/०९ Dated 23 September 2009 has agreed to demise the Land to the lessee for the aforesaid purpose for a total consideration of Rs. 4,85,45,067.00 (Four Crore Eighty Five Lac Forty Five Thousands and Sixty Seven Rupees) only and the annual rent of Rs. 97,528.00 (Rupees Ninty Seven Thousands Five hundred twenty eight) only reserved hereinafter subject to the rights, restrictions and several covenants hereinafter expressed.


NOW THEREFORE THIS LEASE DEED WITNESSETH AS UNDER AS UNDER AND THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS:

1. The words and expressions used but not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Memorandum of Understanding executed between the ADA and Pancham Realcon Pvt. Ltd. dated 05 September 2009 (hereinafter referred to us "MoU").
2. The Lessor is the lawful owner of land admeasuring 36.122 Hectare, situated in Village Devrakh Kachhar, Madanua Uparhar, and Lawayan Kalan, Pargana Arail, Tehsil Karchana District Allahabad (the "Land" and has valid right, title and interest therein and is competent to lease the same to the Lessee. Detailed description of the LAND and a plan thereof (delineated and marked in red) as shown in the Map is attached hereto as SCHEDULE-1.
3. In consideration of the payment of the premium amount of LAND Rs. 4,85,45,067.00 (Four Crore Eighty Five Lac Forty Five Thousands and Sixty Seven Rupees) only and the lease rent of Rs. 97,528.00 (Rupees Ninty Seven Thousands Five hundred twenty eight) only per annum hereunder reserved and of the covenants and conditions on the part of the Lessee with a right to sub-lessee hereinafter contained, the Lessor doth hereby demise unto to the Lessee all that piece and parcel of the LAND, more particularly described in the SCHEDULE-1 hereto for the development of Hi-tech Township and associated facilities for as period of 90 years.
4. The lessee shall have right to get the lease converted into freehold on payment of conversion charges as per prevailing laws in the State after the completion of the development works as specified in the Development Agreement.
5. During the term of the lease, the Lessee shall pay to the Lessor lease rent of Rs. 97,528.00 (Rupees Ninty Seven Thousands Five hundred twenty eight) only per hectare per year in advance (the "Rent Amount") commencing from the month of June 2010. The Lessee has paid to the Lessor for 36.122 Hectare of land falling in list enclosed Village Devrakh Kachhar, Madanua Uparhar, and Lawayan Kalan, Pargana Arail, Tehsil Karchana District Allahabad (U.P.) as per SCHEDULE-1 which includes 36.122 Hectare of the LAND, a premium amount of Rs. 4,85,45,067.00 (Four Crore Eighty Five Lac Forty Five Thousands and Sixty Seven Rupees) only towards resumption/acquisition-cost of the LAND though Pay Order detailed below, the receipt whereof the Lessor doth hereby acknowledges.

Sl. No.	Pay Order No.	Date	Amount (Rs.)	Drawn on
1.	402588	21.5.2010	4,85,45,067.00	Axi's Bank LTD
Total	(Four Crore Eighty Five Lac Forty Five Thousands and Sixty Seven Rupees)			

उत्तरवाद
इलाहाबाद विकास प्राधिकारण
इलाहाबाद


State of Allahabad
23.09.2009



6. The Lessee shall have right to develop and use the LAND to develop, construct, operate and maintain the Hi-tech Township and associated facilities in accordance with the provision of the MoU and for no other purpose whatsoever.
7. The Lessee shall have right to mortgage, pledge or hypothecate the LAND and the assets created thereon to the financial institutions and other tenders for financial assistance.
8. The Lessor covenants and warrants that :
 - (a) The Lessor has the full right and authority to execute this Deed and to grant the lease of the LAND, and that the Lessee, upon payment of the rent and performance of the covenants herein contained, shall peaceably and quietly hold, possess and enjoy the LAND during the full term of this lease without any interruption, disturbance, claims or demands whatsoever by the Lessor or by any persons claiming for and on behalf of the Lessor as per the covenants and provisions of the this Lease Deed. If it is found that the lessee has used the LAND for the purposes other than that for which the LAND has been provided to the lessee, the Lessor shall have right to terminate the lease and the land shall vest absolutely in the Lessor and the Lessor would not be liable to pay any compensation to the lessee.
 - (b) The Lessor shall grant, transfer, convey and assure, from time to time, all its reversionary rights, lease rights and interests in respect of such part of the LAND as may be required by the Lessee/sub-lessees for the development of Hi-tech Township and associated works.
 - (c) The Lessor hereby covenants that the Lessee shall enjoy quiet possession of the LAND without disturbance by it or its successors in interest or any person claiming title paramount thereto in any manner.
 - (d) The Lessor warrants that the LAND is free from Encumbrances. Encumbrances means any encumbrance such as mortgage, charge, pledge, lien, hypothecation, security interest, assignment, privilege or priority of any kind having the effect of security or other such obligations.
9. The Lessee covenants and warrants that :
 - (a) The Lessee shall follow all laws and bye-laws, rules, regulations and directions of Lessor and the local municipal or other authority now existing or hereinafter to exist.
 - (b) The Lessee shall bear entire legal expenses of execution of this Lease Deed including registrations charges.
 - (c) The Lessee will permit the members, officers and subordinates of the Lessor and workmen and other persons employed by the Lessor at all reasonable time of the day with prior notice to enter into and upon the LAND in order to inspect the LAND and carry on necessary works.
 - (d) The Lessee shall pay to the Lessor any dues towards resumption cost of the LAND remaining outstanding and payable as settled by Lessor without in any way affecting Lessee's legal rights of the LAND.
10. Notwithstanding anything contained in this lease deed or the MoU, the Government shall have full rights and title over all the mines and minerals, coal, gold washing; earth oils quarries in and under the LAND or any part thereof which have vested in the Government under section-6 (a) (ii) of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and such Government shall have right to do all acts and things which may be reasonably necessary or expedient for the purpose of searching, removing or enjoying the same, without affecting the lessee's right to peaceful possession of the land.

संचय
उत्तरायां विद्यालय माध्यिकार
काशी वाराणसी





11. That the Lessor in consultation with the Lessee may make such amendments, additions and alternations or modifications in these terms and conditions as may be mutually agreed between Lessor and the Lessee with the prior approval of Housing and Urban Planning Department, Government of U.P.
12. If due to any FORCE MAJEURE or circumstances beyond Lessor's control, the Lessor is unable to deliver clear possession of LAND, entire money and other deposits made by the Lessee to the Lessor in regard to the subject land shall be refunded by the Lessor to Lessee.
13. That the Lessee shall keep the Lessor indemnified against any claims for damages which may be caused to any property belonging to the Lessor/others in consequence of the execution of the works and also against claims for damages arising from the actions of the Lessee or his workmen or representative which:
 - i. Injures or destroys any building or part thereof or other structure contiguous or adjacent to the LAND.
 - ii. Keeps the foundation, tunnels or other pits on the LAND open or exposed to weather causing any injury to any person or to contiguous or adjacent building; and
 - iii. Digs any pit near the foundation of any building hereby causing any injury or damages to such building or occupier thereof.
14. That the damages shall be assessed by the Lessor whose decision as to the extent of injury or damages or the amount payable shall be final and binding on the Lessee.
15. Any relaxation or indulgence granted by the Lessor to the Lessee under this Lease Deed shall not in any way prejudice the legal rights of the Lessor.
16. In the event of any dispute with regard to terms and conditions of the Lease Deed, the matter will be resolved amicably in terms of the provisions of the MoU.
17. That the power exercisable by the Lessor under and in accordance with the terms of Lease Deed may be exercised by such other officer as the Lessor may authorize in this behalf. A copy of such authorization shall be handed over by the Lessor to the Lessee immediately upon such authorization.
18. The lease hold rights can be terminated by the Lessor only within provisions of law and Lessor can enter upon the LAND on ground of breach of any terms and conditions of the Lease Deed only after giving appropriate prior notice to the Lessee.
19. In the event of any conflict between terms and conditions stipulated in the MoU and this Lease Deed, those stipulated in the MoU shall prevail.
20. The LAND shall be for the purposes specified in the MoU only and the Lessee shall not be entitled to use the said land for any other purpose not intended under the MoU nor shall it be used for any purpose contrary to the purposes contained in the MoU.
21. The Lessor and the Lessee hereby agree that all notices hereunder to any party hereto shall be delivered personally or sent by registered mail with acknowledgement due or facsimile to such Party at the address set forth below or such other address as any hereafter be designated in writing by such party to the other party. Notices delivered personally shall be deemed to have been received on the date of receipt; notices sent by registered mail shall be deemed to have been received on the tenth day following mailing; and notices sent by facsimile shall be deemed to have been received one (1) Business Day after transmission provided (i) receipt is verbally confirmed and (ii) an original copy is mailed promptly within five (5) Business Days thereafter:

संविद
इताहाराह विकास प्राधिकरण
हलाहाल





(a) Notices to the Lessor, to;

(b) Notices to the Lessee, to:

All notices, orders and other documents required under the terms of the Lease or under (U.P. Act No. 6 of 1976) or any rules or regulations made there under shall be deemed to the duly served as provided under section 43 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 as re-enacted and modified by the U.P. President's Act (re-enactment and modification) Act, 74 (U.P. Act No. 30 of 1974).

22. This Lease Deed shall be subject to the jurisdiction of District Court at Allahabad or the High Court of Judicature at Allahabad.
23. All arrears payable to Lessor shall be recoverable as arrear of land revenue without prejudice to its other rights under any other law for the time being in force, subject however to the terms of this Lease Deed.
24. That the lessee shall not make or attempt to make any alterations whatsoever, in the provisions of its memorandum and Articles of Association without the prior written consent of the Lessor. The expression "the lessor" and "the lessee" hereinafter used shall in the case of former includes his successors in office and in the case of the latter its successors and assignees.

**SCHEDULE
DETAILS OF THE LAND**

Name of Village	Gata No.	Areas (in acres)
Village...Devireshwar Kachhawha	(enclosed)	89.26 (36-122 feet)
Pargana...Allahabad		
Tehsil...Kanekhawa		
District...Allahabad		

IN WITNESS WHEREOF THE Lessor and the Lessee have caused these presents to be executed on their respective behalf on the day, month and year first hereinabove written in the manner hereinafter appearing.

For and on behalf of the Lessee

(Sri Pancham Reacon
M/s Pancham Reacon Pvt. Ltd.

Witness : 1.....
2.....
(Name and Address)


3208435, 51210010137,

For and on behalf of the Lessor

(Smt. Seema Singh)
Secretary, Allahabad Development Authority

Witness : 1.....

2.....
(Name and Address)



प्रानक गति रेलवे बोर्ड

प्राप्तीक रेलवे बोर्ड

राजस्थान राज्य


नामक	गाडा संख्या	प्रति क	सरकारी अमेलियो द्वा अनुसार सरकारी प्रबुद्ध	प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)	प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)	प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)		प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)	प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)	प्रति क्षेत्रीय (ल्य. मे)
						करण 10	करण 15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8M	0.085	न० ४० सी० आरोपण	1.53	228.50	152.00	124.00	0.00	0.00	1126350
2	9M	0.025	न० ५० सी० आरोपण	0.45	67.50	33100.00	0.00	0.00	0.00	3316750
3	10M	0.025	न० ५० सी० आरोपण	0.27	40.50	19800.00	0.00	0.00	0.00	3316750
4	12M	0.015	न० ५० सी० आरोपण	0.45	67.50	152.00	124.00	0.00	0.00	1126350
5	17M	0.080	न० ४० सी० आरोपण	1.62	243.00	132400.00	119160.00	0.00	0.00	1990050
6	29M	0.030	न० ४० सी० आरोपण	1.62	243.00	132400.00	119160.00	0.00	0.00	1990050
7	36	0.200	न० ४० सी० आरोपण	1.62	243.00	132400.00	119160.00	0.00	0.00	1990050
8	55M	0.090	न० ५० सी० आरोपण	3.60	540.00	132400.00	264800.00	0.00	0.00	11440300
9	64M	0.140	न० ५० सी० आरोपण	1.62	243.00	132400.00	119160.00	0.00	0.00	26534000
10	65M	0.140	न० ४० सी० आरोपण	2.52	378.00	132400.00	185360.00	0.00	0.00	11900300
11	23M	0.160	न० ५० सी० आरोपण	2.52	378.00	132400.00	185360.00	0.00	0.00	18573500
12	71M	0.190	न० ५० सी० आरोपण	2.68	432.00	132400.00	211840.00	0.00	0.00	18573600
13	110M	0.030	न० ५० सी० आरोपण	3.42	513.00	132400.00	251560.00	0.00	0.00	21227200
14	119M	0.030	न० ५० सी० आरोपण	0.54	81.00	132400.00	34720.00	0.00	0.00	25217300
15	120M	0.027	न० ५० सी० आरोपण	0.54	81.00	132400.00	39720.00	0.00	0.00	3941150
16	125M	0.09	न० ५० सी० आरोपण	0.48	72.09	132400.00	35350.80	0.00	0.00	35861100
17	136M	0.070	न० ५० सी० आरोपण	1.62	243.00	132400.00	119160.00	0.00	0.00	3542238
18	137M	0.100	न० ५० सी० आरोपण	1.26	189.00	132400.00	52680.00	0.00	0.00	11949300
19	139	0.120	न० ५० सी० आरोपण	1.80	270.00	132400.00	152400.00	0.00	0.00	92859100
20	142	0.130	न० ५० सी० आरोपण	2.16	324.00	132400.00	158680.00	0.00	0.00	19250100
				2.34	351.00	132400.00	172120.00	0.00	0.00	15920400


पंचायत प्रिवेट लिमिटेड
Allahabad
Panchayat

प्रानक गति रेलवे बोर्ड
इच्छादात्रव

संसद

संसद





मान का नाम : मदन ऊराय

संदर्भ का नाम : कालांड

मानक दातानि के लिये दूर तितन ग्राम के पुरानक का सूची लिखत काला नाम पर हलाहल वाद

क्रमांक	ग्राम संख्या	प्राप्त वर्ष	प्राप्ति	सरकारी अधिकारी के नाम	प्राप्ति ग्रामीण का (को. रुपय)	प्राप्ति ग्रामीण का (को. रुपय)	नियंत्रित दर	प्राप्ति ग्रामीण का (को. रुपय)	नियंत्रित दर	प्राप्ति ग्रामीण का (को. रुपय)	नियंत्रित दर	प्राप्ति ग्रामीण का (को. रुपय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	153	0.078	10 ग्रामीण	पुरुष	1.40	210.50	1200.00	9360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	0.104	10 ग्रामीण	पुरुष	1.87	280.85	1200.00	12480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	176	0.105	10 ग्रामीण	पुरुष	1.85	280.85	1200.00	12480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2811W	0.042	10 ग्रामीण	पुरुष	1.25	283.50	1200.00	12665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2822W	0.042	10 ग्रामीण	पुरुष	0.76	113.40	1200.00	59400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	51	0.154	10 ग्रामीण	पुरुष	0.76	113.40	1200.00	50400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	57	0.125	10 ग्रामीण	पुरुष	3.49	523.80	1200.00	23280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	9341	0.025	10 ग्रामीण	पुरुष	2.25	337.50	1200.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	96	0.080	10 ग्रामीण	पुरुष	0.45	47.50	1200.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13511M	0.066	10 ग्रामीण	पुरुष	1.44	216.00	1200.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	13711M	0.055	10 ग्रामीण	पुरुष	1.19	178.20	1200.00	7820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	13811M	0.081	10 ग्रामीण	पुरुष	0.96	146.50	1200.00	66100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	139M	0.080	10 ग्रामीण	पुरुष	1.46	216.75	1200.00	57200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	143	0.263	10 ग्रामीण	पुरुष	1.44	216.00	1200.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	144	0.263	10 ग्रामीण	पुरुष	4.73	710.10	1200.00	315600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

लालहावाद विकास बोर्ड

लालहावाद




16	2184	0.043	न० ३० स० आरेपण	0.77	116.10	120000.00	21600.00	0.00	0.00	5176.10
17	26124	0.009	न० ३० स० आरेपण	0.16	23.30	125000.00	10800.00	0.00	0.00	10824.30
18	2634	0.045	न० ३० स० आरेपण	0.81	121.50	123000.00	54000.00	0.00	0.00	54121.50
19	2754	0.011	न० ३० स० आरेपण	0.20	29.70	120000.00	132000.00	0.00	0.00	13229.70
20	27924	0.055	न० ३० स० आरेपण	1.19	178.20	120000.00	79200.00	0.00	0.00	79378.20
21	287114	0.083	न० ३० स० आरेपण	1.49	224.10	120000.00	99600.00	0.00	0.00	99824.10
22	2894	0.014	न० ३० स० आरेपण	0.25	37.80	120000.00	16800.00	0.00	0.00	16837.80
कुल योग	22 गाता	1.874		33.73	5059.80	0.00	2248800.00	0.00	0.00	2253860.00

अपर जिलाधिकारी, कर्तव्या—
न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी अधिकारी, न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी
सीमान्तरीय, इस्तेहनी

अपर जिलाधिकारी, कर्तव्या—
न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी अधिकारी, न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी
सीमान्तरीय, इस्तेहनी

अपर जिलाधिकारी, कर्तव्या—
न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी अधिकारी, न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी
सीमान्तरीय, इस्तेहनी

अपर जिलाधिकारी, कर्तव्या—
न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी अधिकारी, न० ३० स० आरेपण/किरण द्रव्यनी
सीमान्तरीय, इस्तेहनी



टाइटन, ग्राफ्टिंग के लिये देश में बहुत ज्यादा के पूर्णतया क्षमता वाले दस्तावेज़


ग्राम का नाम : नवादन रखा

तहसील का नाम : बुरछन, इलाहाबाद


क्रमांक	ग्राम गांव	पूर्ण क्षमता वाले ग्राफ्टिंग के लिये अनुमति	नियुक्ति	ग्राम	पूर्ण क्षमता वाले ग्राफ्टिंग के लिये अनुमति	नियुक्ति	ग्राम	पूर्ण क्षमता वाले ग्राफ्टिंग के लिये अनुमति	नियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10M	0.171	न0 ५० ३०	3.03	45.75	1300000.00	22250.00	0.00	6.00
2	11M	0.019	न0 ५० ३०	0.34	51.35	1300000.00	21550.00	0.00	0.00
3	12M	0.578	न0 ५० ३०	2.53	75.80	1300000.00	35380.00	0.00	0.95
4	15	3.263	न0 ५० ३०	4.73	710.10	1300000.00	24730.00	0.00	22.77
5	18	0.468	न0 ५० ३०	8.42	126.80	1300000.00	60000.00	0.00	69.85
6	19M	0.068	न0 ५० ३०	1.22	18.50	1300000.00	35380.00	0.00	0.22
7	24M	0.038	न0 ५० ३०	1.22	18.50	1300000.00	35380.00	0.00	0.22
8	25	0.954	न0 ५० ३०	0.97	145.30	1300000.00	70380.00	0.00	183.25
9	28	0.060	न0 ५० ३०	1.06	162.00	1300000.00	70380.00	0.00	0.00
10	29M	0.092	न0 ५० ३०	1.66	248.40	1300000.00	11320.00	0.00	11.9518
11	30M	0.963	न0 ५० ३०	1.13	170.10	1300000.00	61320.00	0.00	6.7170
12	31M	0.014	न0 ५० ३०	0.25	37.80	1300000.00	19016.00	0.00	1.5228
13	32M	0.023	न0 ५० ३०	0.41	62.10	1300000.00	20891.00	0.00	2.0562
14	38M	0.139	न0 ५० ३०	2.50	375.30	1300000.00	162240.00	15000.00	0.00
15	39	0.040	न0 ५० ३०	0.72	138.00	1300000.00	57031.00	25010.00	5.9303
16	43M	1.110	न0 ५० ३०	1.98	297.00	1300000.00	143000.00	300.00	0.00
17	46M	0.063	न0 ५० ३०	1.22	183.60	1300000.00	88406.00	600.00	9.00
18	50	0.334	न0 ५० ३०	5.95	893.70	1300000.00	430300.00	1000.00	431.53
19	51M	0.114	न0 ५० ३०	2.05	307.80	1300000.00	148280.00	14320.00	0.00
20	52M	0.234	न0 ५० ३०	4.21	631.80	1300000.00	304200.00	30420.00	0.00




सीचार
शास्त्रात्मक विकास प्राधिकरण



क्रमांक	नाम संख्या	पूर्ण का प्राप्ति संख्या (₹.0)	तारकमंडली के विवाह प्रत्यक्ष वृद्धि	मालवगारी का 150 ग्रन्ता (₹.0 में)	मालवगारी का 150 ग्रन्ता (₹.0 में)	पूर्ण का वाराक निर्वाचित दर	पूर्ण (₹.0 में)	पूर्ण का वाराक निर्वाचित दर	पूर्ण (₹.0 में)	लिंक मार्ग के अनुदर्शन (₹.0 में)
21	524	0.154	ना ५० को०	2.17	415.80	1300000.00	20025.00	7822.22	2.22	5.22
22	618	0.095	ना ५० को०	6.11	16.20	1300000.00	7822.22	2.22	5.22	7.22
23	624	0.163	ना ५० को०	1.21	27.00	1300000.00	1309036.00	1309036.00	1.22	5.22
24	672	0.251	ना ५० को०	4.25	277.72	1300000.00	326311.22	326311.22	5.22	226375
25	724	0.102	ना ५० को०	4.25	276.16	1300000.00	130325.00	130325.00	2.22	134173
26	724	0.114	ना ५० को०	2.05	307.82	1300000.00	148235.00	148235.00	0.02	125503
27	73	0.126	ना ५० को०	2.27	340.20	1300000.00	163822.70	163822.70	0.02	154140
28	74	0.434	ना ५० को०	7.81	1171.80	1300000.00	56420.00	56420.00	0.02	565372
29	75	0.228	ना ५० को०	4.10	615.60	1300000.00	29645.00	29645.00	0.02	237015
30	78	0.194	ना ५० को०	3.49	523.80	1300000.00	252205.70	252205.70	0.02	252724
31	79	0.239	ना ५० को०	4.30	645.30	1300000.00	310702.20	310702.20	0.02	311345
32	80	0.240	ना ५० को०	4.32	646.50	1300000.00	312005.20	312005.20	0.02	312622
33	814	0.251	ना ५० को०	4.52	677.70	1300000.00	326352.30	326352.30	0.02	326975
34	882	0.080	ना ५० को०	1.44	216.00	1300000.00	10400.00	10400.00	0.02	104216
35	884	0.545	ना ५० को०	6.65	124.20	1300000.00	58850.00	58850.00	0.02	58924
36	904	0.008	ना ५० को०	1.14	21.00	1300000.00	10400.00	10400.00	0.02	104222
37	944	0.114	ना ५० को०	2.05	207.82	1300000.00	146235.00	146235.00	0.02	146355
38	954	0.103	ना ५० को०	1.85	278.10	1300000.00	133922.20	133922.20	0.02	134176
39	96	0.251	ना २० को०	3.50	677.70	1300000.00	326352.30	326352.30	0.02	326975
40	1024	0.114	ना ५० को०	2.05	367.82	1300000.00	148235.00	148235.00	0.02	148505
41	1034	0.114	ना ५० को०	2.05	307.50	1300000.00	148235.00	148235.00	0.02	148505
42	1054	0.440	ना ५० को०	7.82	1189.02	1300000.00	572352.30	572352.30	0.02	573185
43	1134	0.068	ना ५० को०	1.14	163.62	1300000.00	8422.22	8422.22	0.02	83555
44	1144	0.118	ना ५० को०	2.12	313.22	1300000.00	153252.30	153252.30	0.02	153711
45	1164	0.160	ना ५० को०	5.95	432.82	1300000.00	205352.30	205352.30	0.02	205355




क्रमांक.	गाय संख्या	गुण समूह पुनर्वात्तम तंत्रजल (हि)	गायस्त्री अंकसंख्ये के अनुतार सामान्यता सूचना	मालगुजारी का 150 गुना (हि में)	गुण का वाचक नियंत्रित दर मूल (हि में)	गुण का वाचक नियंत्रित दर मूल (हि में)	गुण का वाचक नियंत्रित दर मूल (हि में)	नियंत्रित गाय के अनुतार सूचना (हि में)
46	162	1.016	न0 ४० सी०	18.29	2743.20	1300000.00	1322500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.००
47	164	0.114	न0 ४० सी०	2.05	307.80	1300000.00	145200.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.८५
48	170M	0.059	न0 ४० सी०	1.८५	159.30	1300000.00	76700.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०५
49	174M	0.496	न0 ४० सी०	८९३	1339.20	1300000.00	84456.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०५
50	194	0.365	न0 ४० सी०	6.57	965.50	1300000.00	474500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.८५
51	235M	0.050	न0 ४० सी०	0.50	135.00	1300000.00	65500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०५
52	237M	0.016	न0 ४० सी०	0.29	43.20	1300000.00	20520.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०१
53	247M	0.019	न0 ४० सी०	0.34	51.30	1300000.00	27700.30	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०१
54	254M	0.145	न0 ४० सी०	2.61	391.50	1300000.00	168550.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१५
55	255M	0.117	न0 ४० सी०	2.11	315.90	1300000.00	152100.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१५
56	256	0.308	न0 ४० सी०	5.54	831.60	1300000.00	400450.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०५
57	260M	0.100	न0 ४० सी०	1.50	269.46	1300000.00	125720.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०५
58	261M	0.026	न0 ४० सी०	0.46	69.66	1300000.00	33532.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०२
59	262M	0.046	न0 ४० सी०	0.63	124.20	1300000.00	53550.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०२
60	263M	0.13	न0 ४० सी०	1.65	276.10	1300000.00	133982.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१३
61	267	0.205	न0 ४० सी०	3.69	453.50	1229000.22	766500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१३
62	268/2	0.056	न0 ४० सी०	1.01	151.20	1300000.22	72550.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०१
63	269	0.217	न0 ४० सी०	3.91	585.90	1300000.00	282150.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१३
64	271M	0.445	न0 ४० सी०	8.01	1261.50	1300000.00	576550.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१३
65	273M	0.200	न0 ४० सी०	3.60	540.00	1300000.00	260000.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०३
66	275	0.013	न0 ४० सी०	0.23	36.10	1300000.00	16600.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.०१
67	281	0.274	न0 ४० सी०	4.93	739.80	1300000.00	356550.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१३
68	292M	0.602	न0 ४० सी०	10.84	1625.40	1300000.00	762500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.६०
69	293M	0.171	न0 ४० सी०	3.05	461.70	1300000.00	222500.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१७
70	294M	0.177	न0 ४० सी०	3.19	477.90	1300000.00	230100.00	कागा 10 प्रतिशत वृद्धि ०.१७



प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय बिहार

क्रमांक	गान्य संख्या	गृष्म का पुनर्व्युत्त गतिशील अंकितेष्वे वे अनुग्रह दारकारी पूर्वानुष्ठान (हे०)	मानसुन्नतारा (रु० मे० मे०)	मानसुन्नतारा का शृ०गुण (रु० जुन (रु० निर्वाचित दर मूल्य (रु० मे० मे०)	शृ०गुण का वाजाहा 150 जुन (रु० निर्वाचित दर मूल्य (रु० मे० मे०)	वाक्यांश के निकू मान के शृ०गुण 10 जुन (रु० निर्वाचित दर मूल्य (रु० मे० मे०)	शृ०गुण 15 जुन (रु० निर्वाचित दर मूल्य (रु० मे० मे०)
71	285/2	0.133	न० श० स०	2.39	359.10	1320000.00	1722900.00
72	286	0.133	न० श० स०	2.39	359.10	1300000.00	1722900.00
73	289M	0.016	न० श० स०	0.29	43.20	1300000.00	236300.00
74	290M	0.237	न० श० स०	4.27	639.90	1300000.00	303100.00
75	295	0.171	न० श० स०	3.08	461.70	1300000.00	2223000.00
76	298	0.251	न० श० स०	4.52	677.70	1300000.00	326300.00
77	300	0.265	न० श० स०	5.13	769.50	1300000.00	370500.00
78	302M	0.342	न० श० स०	6.16	523.40	1300000.00	444600.00
79	304M	0.029	न० श० स०	0.51	76.95	1300000.00	370500.00
80	306/3	0.026	न० श० स०	0.47	70.20	1300000.00	338000.00
81	307M	0.074	न० श० स०	1.34	200.61	1300000.00	555500.00
82	309M	0.215	न० श० स०	2.07	580.50	1300000.00	279500.00
83	310	0.593	न० श० स०	10.67	1601.10	1336990.00	770500.00
84	314	0.126	न० श० स०	2.27	340.20	1300000.00	163800.00
85	317M	0.228	न० श० स०	4.10	615.60	1300000.00	236300.00
86	319M	0.040	न० श० स०	0.72	11.50	1322000.00	52400.00
87	321	0.228	न० श० स०	4.10	615.60	1300000.00	236300.00
88	322M	0.080	न० श० स०	1.44	216.00	1300000.00	104000.00
89	323M	0.014	न० श० स०	0.25	37.50	1300000.00	13200.00
90	324	0.346	न० श० स०	0.83	124.20	1300000.00	59800.00
91	325M	0.068	न० श० स०	1.22	133.60	1300000.00	83400.00
92	326	0.033	न० श० स०	1.22	183.50	1300000.00	88400.00
93	329	0.068	न० श० स०	1.22	183.50	1700000.00	88400.00
94	401/4M	0.377	न० श० स०	6.79	1017.50	1300000.00	490100.00
95	600/2M	0.140	न० श० स०	2.50	328.00	1300000.00	152000.00

१०८



क्रमांक	गाँव संख्या	मूँग का पुनर्वितरण शोधपत्र (हेट)	प्राक्कारी औपचेतों के अनुमान पालघर पुराना (हेट)	प्राक्कारी प्रवृण्ड (स्टॉ मे)	पालघर पुराना का नियांवरत दर (स्टॉ मे)	धूम का नियांवरत दर (स्टॉ मे)	धूम का सूत्र (50 मे)	धूम का वाकाल सूत्र (50 मे)	नियंत्रण वृद्धि अनुभव वृद्धि	नियंत्रण वृद्धि अनुभव 15 दे
95	620M	0.034	न० मूँग तीव	0.62	92.34	1300000.00	44450.00	0.00	0.00	0.00
97	321M	0.228	न० मूँग तीव	4.10	615.60	1300000.00	235400.00	0.00	0.00	44552
98	322M	0.089	न० मूँग तीव	1.44	216.00	1300000.00	1040000.00	0.00	0.00	257016
100	643M	0.266	न० मूँग तीव	4.82	723.60	1300000.00	323430.00	0.00	0.00	102216
101	644	0.399	न० मूँग तीव	7.18	1077.30	1300000.00	518700.00	0.00	0.00	323124
102	648	0.091	न० मूँग तीव	1.64	245.70	1300000.00	116300.00	0.00	0.00	516777
103	650	0.228	न० मूँग तीव	4.10	615.60	1300000.00	255400.00	0.00	0.00	116543
104	652	0.319	न० मूँग तीव	3.91	585.90	1300000.00	282163.00	0.00	0.00	297576
105	653	0.163	न० मूँग तीव	5.74	651.30	1300000.00	414700.00	0.00	0.00	282565
106	657M	0.217	न० मूँग तीव	3.29	454.10	1300000.00	235350.00	0.00	0.00	445561
107	659M	0.540	न० मूँग तीव	7.45	1117.60	1300000.00	535200.00	0.00	0.00	235754
108	660M	0.126	न० मूँग तीव	5.72	1453.00	1300000.00	702000.00	0.00	0.00	538316
109	661M	0.217	न० मूँग तीव	2.27	340.20	1300000.00	163630.00	0.00	0.00	703458
110	662/2M	0.631	न० मूँग तीव	3.91	585.90	1300000.00	282163.00	0.00	0.00	282555
111	664/2M	0.126	न० मूँग तीव	11.36	1703.70	1300000.00	620536.00	0.00	0.00	822004
112	667	0.126	न० मूँग तीव	2.27	340.20	1300000.00	163630.00	0.00	0.00	224140
113	671M	0.023	न० मूँग तीव	2.27	340.20	1300000.00	163630.00	0.00	0.00	164113
114	673/1M	0.091	न० मूँग तीव	0.52	78.30	1300000.00	3700.00	0.00	0.00	164113
115	674M	0.114	न० मूँग तीव	1.64	225.76	1300000.00	116300.00	0.00	0.00	37778
116	674M	0.513	न० मूँग तीव	2.06	308.61	1300000.00	148590.00	0.00	0.00	1303576
117	676M	0.408	न० मूँग तीव	6.23	735.10	1300000.00	206910.00	0.00	0.00	143639
118	682M	0.015	न० मूँग तीव	7.34	1121.60	1300000.00	530450.00	0.00	0.00	638755
119	691	~ 171	न० मूँग तीव	0.27	40.50	1300000.00	16500.00	0.00	0.00	538322
120	700M	0.029	न० मूँग तीव	0.51	3.05	1300000.00	222320.00	0.00	0.00	18541




राज्यपाल दिक्षात् प्रतिष्ठान
कालहिकार

42355
Anil Patil
22/03/2012

क्रमांक	गाय संख्या	पूर्ण रुप योग्यता शरणपत्र (रु.0)	पूर्ण रुप्यता शरणपत्र (रु.0)	पालनगारी का पालनगारी (रु.0 (50 मे.)	पालनगारी का पालनगारी (रु.0 (50 मे.)	पूर्ण का ट्रिवर्गित रा- म	लघु का वातावर- करण के मूल्य (रु.0 मे.)	लघु वातावर- करण 10 प्रतिशत इन्डि- केशन द्वारा की जा रही प्रतिशत इन्डि- केशन द्वारा	लघु दृष्टि (रु.)
121	701M	0.097	न0 १००	1.75	261.90	1300000.00	126100.00	0.05	183.33
122	702M	0.046	न0 १००	0.22	123.65	1300000.00	52540.00	0.04	63.25
123	703M	0.032	न0 १००	0.57	85.05	1300000.00	4753.00	0.02	6.14
124	704M	0.080	न0 १००	1.44	210.00	1300000.00	13422.00	0.04	136.00
125	707	0.502	न0 १००	9.04	1355.45	1300000.00	65250.00	0.04	57.25
126	709M	0.021	न0 १००	0.38	55.75	1300000.00	27300.00	0.05	22.50
127	710M	0.034	न0 १००	0.62	92.34	1300000.00	44460.00	0.04	33.00
128	712	0.160	न0 १००	2.88	432.00	1300000.00	208000.00	0.03	22.50
129	714	0.137	न0 १००	2.47	339.95	1300000.00	178100.00	0.05	25.50
130	715	0.274	न0 १००	4.95	739.80	1300000.00	356200.00	0.03	53.25
131	716M	0.143	न0 १००	2.57	356.10	1300000.00	185500.00	0.03	27.25
132	717M	0.037	न0 १००	0.67	99.90	1300000.00	46100.00	0.05	12.50
133	718M	0.160	न0 १००	2.88	432.00	1300000.00	235500.00	0.03	14.25
134	720	0.080	न0 १००	1.44	216.00	1300000.00	134300.00	0.03	15.50
135	722M	0.405	न0 १००	7.29	1093.50	1300000.00	526520.00	0.03	78.50
136	723M	0.096	न0 १००	1.72	259.20	1300000.00	124520.00	0.03	15.25
137	728M	0.128	न0 १००	2.31	348.41	1300000.00	186750.00	0.03	25.25
138	732	0.225	न0 १००	4.10	615.67	1300000.00	235400.00	0.03	15.00
139	734M	0.013	न0 १००	0.24	35.10	1300000.00	16900.00	0.03	2.50
140	741	0.114	न0 १००	2.05	307.50	1300000.00	148200.00	0.03	22.50
141	743M	0.083	न0 १००	1.49	223.56	1300000.00	10760.00	0.03	1.20
142	744M	0.060	न0 १००	1.03	162.00	1300000.00	76000.00	0.03	1.20
143	745	0.434	न0 १००	7.81	1171.60	1300000.00	984720.00	0.03	22.50
144	746M	0.090	न0 १००	1.44	216.00	1300000.00	104300.00	0.03	1.20
145	748/21	0.016	न0 १००	0.39	43.20	1300000.00	20620.00	0.03	1.20

साहित्य विकास प्रार्थना
लाइब्रेरी

संग्रहीत



14

2

क्रमांक	गाड़ा संख्या	गुप्त का पुनर्गठित देशपाल (₹.0)	सरकारी अधिकारी के अनुसार देशपाल शुद्धाद (₹.0)	पालगुरामी (₹.0 मे.)	पालगुरामी का पालगुरामी (₹.0 मे.)	श्रीम का निर्वाचित दर (₹.0)	श्रीम का वाजाह दरकमान के प्रतिशत शुद्ध ग्राहिताता दर (15%)	निक वार्ता दर (10%)	श्रीम का वाजाह दरकमान के प्रतिशत शुद्ध ग्राहिताता दर (20%)	कुल मूल्य (₹.0 मे.)
146	750	0.251	८० ८० रु०	४.५२	६७७.७०	१३०००००.००	३२६३००.००	०.००	४६५५५.००	३७५२३.
147	753	0.096	८० ८० रु०	१.७३	२५९.२०	१३०००००.००	१२४८००.०५	०.५०	०.००	१२५०५९
148	755	०.२२८	८० ८० रु०	४.१०	६१५.६०	१३००००५.५०	२३६४०५.३०	०.५०	०.०३	२३७१५६
149	76३M	०.०४३	८० ८० रु०	०.७७	११५.५६	१३००००२.००	५५६५०.५६	०.०१	८२५५५.००	८२५१०२
150	76३M	०.८९२	८० ८० रु०	१६.५८	२४०८.४०	१३०००००.००	११५९५००.००	०.००	१७३४४.००	१३३५५४८
151	76५M	०.०८०	८० ८० रु०	१.४४	२१६.००	१३०००००.००	१०४०००.००	०.००	९०३	११४५१६
152	7८८M	०.४४२	८० ८० रु०	७.९६	१११३.४०	१३०००००.००	५७५५०.००	०.३०	०.३०	६३३२५३
153	7७३M	०.२७०	८० ८० रु०	४.९६	७२९.००	१३०००००.००	३५१०००.००	०.३०	०.००	३६३६३२
154	7७६	०.४७९	८० ८० रु०	८.६२	१२३३.३०	१३०००००.००	६२२२७०.००	०.००	०.००	६२२२६३३
155	७८१M	०.१८३	८० ८० रु०	३.२९	४३४.१०	१३०००००.००	२३७५०.००	०.००	०.००	२३७१६४
156	७८५M	०.२७०	८० ८० रु०	४.८६	७२२.३०	१३०००००.००	३५१०००.०५	०.००	०.००	३५५४४८
157	७८६M	०.१९९	८० ८० रु०	३.५३	५३७.३०	१३०००००.००	२५८७००.००	०.००	०.००	२६२६३३
158	७९१M	०.०८५	८० ८० रु०	१.६३	१३०००००.००	१३०००००.००	११०५००.००	०.००	०.००	११०५०००
159	७९५M	०.०८७	८० ८० रु०	१.५७	२३४.९५	१३०००००.००	११३१००.००	०.००	०.००	११३३३५
160	७९७	०.०१३	८० ८० रु०	०.७३	३५.१८	१३०००००.००	१६९००.००	०.००	०.००	३५५४४८
161	७९९	०.३५८	८० ८० रु०	१.०३	१०३.९०	१३०००००.००	७४१००.००	०.००	०.००	७४१०००
162	८१२M	०.६४५	८० ८० रु०	१५.२८	२१६६.५०	१३०००००.००	२३१०००.००	०.००	०.००	२३१०००
163	८४४M	०.११४	८० ८० रु०	२.०५	३०७.६०	१३०००००.००	१४६२००.००	०.००	०.००	१४६२००
164	८५५M	०.१७७	८० ८० रु०	३.१८	४७७.९०	१३०००००.००	२३१०००.००	०.००	०.००	२३१०००
165	८५६M	०.०५७	८० ८० रु०	१.४५	१५३.९०	१३०००००.००	२३१०००.००	०.००	०.००	२३१०००
166	८५७	०.३२०	८० ८० रु०	५.८८	६६१.००	१३०००००.००	७४१००.००	०.००	०.००	७४१०००
167	८६२	०.११४	८० ८० रु०	१.८५	२०७.८०	१३०००००.००	४१६०००.००	०.००	०.००	४१६०००
168	८६७	०.१६३	८० ८० रु०	३.८५	३१७.८०	१३०००००.००	१४३२००.००	०.००	०.००	१४३२००
169	८७८M	०.०१५	८० ८० रु०	३.१४	४३१.१०	१३०००००.००	२३७९००.००	०.००	०.००	२३७९००
170	८८३M	०.१३६	८० ८० रु०	१.८५	१३.६०	१३०००००.००	६५००००.००	०.००	०.००	६५००००
171	८८८M	०.१३६	८० ८० रु०	३.८५	४३१.८०	१३०००००.००	५०४४००.००	०.००	०.००	५०४४००.००

प्राचीनतम् विकासं प्राप्तं
प्राचीनतम्



مکالمہ میں
کوئی ملکہ
نہیں


उपर्युक्तक तहसीलदार,
निर्दिशक तहसीलदार,
कामना

Chitwan
1970

A circular library stamp with handwritten text 'A. J. S.' overlaid. The stamp contains the following text:
Panjab Public Library
Amritsar
Punjab
India
Asia
*
The stamp is oriented vertically on the left side of the page.

प्राचीन वैज्ञानिक विद्या

५७



राजस्त्रीकरण अधिनियम 1908 को धारा 32ए के अन्तर्गत
(Finger Prints) अंगुलियों के चिह्न क्रेता एवं विक्रेता

दायें हाथ *अमीर पांडा* दायें हाथ

दायें हाथ

	छमिल	
	अमारिला	
	मध्यमा	
	त्रिर्णी	



अमीर पांडा

दायें हाथ

सन्दर्भ दिनांक 20/12/1910 दायें हाथ

	पर्याप्त	
	अपर्याप्ता	
	मध्यमा	
	मध्यमी	
	अमुख्य	

23/12/2010

लालहाबाद विभाग प्रशिक्षण

प्रशिक्षण



281676

I

227182

2031
3441

66

(भाग 1)

(भाग 1)
तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाला)

क्रम-संख्या

र्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक २४-६-२०

या प्रार्थी का नाम

कार
धन्तवाणि

धनराश स्ट्रीकरण शुल्क

लिपिकरण शुल्क

प्राक्षण या तलाश शुल्क **पर्याप्त रूप से निम्न** लागतनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

ज्ञानामा क
सीधार शाल्क

माशन शुल्क
विविध 1000/-

ग्रन्तिक भत्ता

तक का योग

नक का पान
सूल करने का दिनांक

जब लेख्य प्रतीलाप था

रने के लिए तयार हाँ॥

करण अधिकारी के हस्ताक्षर 200
मुद्रित तिथि: 18.5.2009 निवारण

एस10यूपी10 01 निवासी। 18.5.2009
- 50,000 पुरुष (शीठीपी10/आपसेट)

(भाग

(अधि)

प्रस्तुतकर्ता

प्रमाण-पत्र

निष्पादक

लेख्य का

प्रतिफल व

०००

दिनांक,

प्रभाण-८

रजिस्ट्रीक

